



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1940 (श10)

(सं0 पटना 559) पटना, मंगलवार, 12 जून 2018

सं0 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018-782

उद्योग विभाग

संकल्प

17 मई 2018

विषय :- राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रु0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति के संबंध में।

राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरुची पैदा करने के उद्देश्य से एक विशेष स्व-रोजगार सृजन योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसका क्रियान्वयन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजित करना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 98.23 (अन्तानवे करोड़ तेईस लाख रुपये), वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 100.07 (एक सौ करोड़ सात लाख रुपये), वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 80.85 (अस्सी करोड़ पचासी लाख रुपये) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 70.39 (सत्तर करोड़ उन्चालीस लाख रुपये) की राशि का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया गया जिसका व्यय नहीं होने के फलस्वरूप राशि को सरकारी कोष में जमा करना पड़ा। इन वर्गों के लिए इस योजना का दिशानिर्देश सहज एवं सरल होगा जिससे इस योजना का कार्यान्वयन आसानी से हो सके।

1. परिचय :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं

परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रु0 25,000/- (पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

2. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी :-

- बिहार के निवासी हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो।
- कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हों।
- इकाई प्रोपराइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company के तहत निबंधित हो।

3. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत हैं :-

- | | | |
|-------|---|-----------------|
| i. | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | — अध्यक्ष |
| ii. | निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय | — सदस्य—सह—सचिव |
| iii. | उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | — सदस्य |
| iv. | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना | — सदस्य |
| v. | विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार | — सदस्य |
| vi. | उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग | — सदस्य |
| vii. | चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि | —सदस्य |
| viii. | विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि | —सदस्य |
| ix. | अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना | —सदस्य |
| x. | अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना | —सदस्य |

4. इस योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना की प्रथम किस्त के रूप में रु0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) विमुक्त किया जा रहा है। आवेदकों की संख्या में वृद्धि के अनुसार इस योजनान्तर्गत समुचित राशि का उपबंध किया जायेगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।

6. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति तीन चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेड का निर्माण के उपरांत द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना एवं प्रथम तथा द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का भुगतान किया जायेगा।

7. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रु0 25,000/- के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित राशि का व्यय (I) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-23-2852807890102, विषय शीर्ष-0102.31.06, सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में रु0 16.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु0 2,33,75,000 एवं

मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0101-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-23- 2852087960101, विषय शीर्ष-0101.31.06, सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में रु0 3.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु0 16,25,000 की जायेगी।

(II) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का

सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852807890101, विषय शीर्ष-0101.27.01 लघु कार्य मद में रु0 26.35 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0105-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852807890105, विषय शीर्ष-0105.33.01 सब्सिडी मद में रु0 15.00 करोड़ अर्थात् कुल रु0 41.35 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि एवं

मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0123-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852807960123, विषय शीर्ष-0123.27.01 लघु कार्य मद में रु0 1.08 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0122-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852807960122, विषय शीर्ष-0122.33.01 सब्सिडी मद से रु0 25.00 लाख अर्थात् कुल रु0 1.33 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी।

शेष राशि का उपबंध विभागीय उद्ध्यय के अंतर्गत आंतरिक सामंजन से प्रस्तावित है।

9. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रु0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 559-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>